



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 1970/ज्येष्ठ 12, 1892

No. 104]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 1970/JYAISTHA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June 1970

G.S.R. 868/Ess. Com./Gur.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause 3 of the Gur (Regulation of Use) Order, 1968, the Central Government hereby authorises the Chief Director, Additional Chief Director and Director in the Directorate of Sugar and Vanaspati, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) to exercise the powers conferred under the said proviso.

[No. 9-5/70-S Py.]

R. S. TALWAR, Joint Secy.

ख.द्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून 1970

सं० का० नि० 868/आव० वस्तु/गुड.—गुड (उपयोग का विनियमन) आदेश 1968 के खण्ड 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के शर्करा और वनस्पति निदेशक तथा के मुख्य निदेशक, अपर मुख्य निदेशक और निदेशक को उक्त परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं 9-5/70-एस०पी०वाई०]

आ०० एन० तलवाड़, संयुक्त सचिव।